

सलाहकार-एमआईएस विशेषज्ञ

रिक्तियों की संख्या-1

बीआरएलएफ के बारे में

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) एक स्वायत्त संस्था है, जो भारत सरकार द्वारा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत की गई है। बीआरएलएफ को केंद्रीय मंत्रीमंडल के निर्णय के माध्यम से 03 सितम्बर, 2013 को संस्थापित किया गया था, जिसमें मंत्रीमंडल ने सरकार के साथ भागीदारी में नागरिक समाज कार्य की उन्नति हेतु एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करने का विचार रखा था।

बीआरएलएफ का गठन भारत-भर के लोगों की आजीविका और जीवन के रूपांतरण हेतु सरकार के साथ भागीदारी में नागरिक समाज कार्य को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। ग्रामीण निर्धन जीवन को रूपांतरित करने हेतु, बीआरएलएफ प्राकृतिक संसाधनों के उत्थान, सिंचाई हेतु जल की वृद्धि और कृषि करने, आजीविका के प्रोत्साहन, पशुपालन तथा ऑफ-फार्म आजीविका सहित, तथा महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय समावेश करने पर केंद्रित है। बीआरएलएफ निर्धनों पर लक्षित अग्रणी सभी हस्तक्षेपों से महिलाओं द्वारा नेतृत्व वाले सशक्त जमीनी स्तर पर संस्थानों पर बल देता है। बीआरएलएफ ने नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ अपनी रणनीतिक नियुक्ति के माध्यम से प्रमुख परिणाम और उत्पादन प्राप्त किए हैं। बीआरएलएफ सरकार और निगमों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम प्रारूप के मध्य अंतराल को कम करने से पृष्ठभूमि पर समुदायों के साथ कार्यरत जमीनी स्तर पर नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ सक्रियता से कार्य करता है, कार्यक्रम के दौरान जमीनी स्तर पर सरकार के लोकतांत्रिक संस्थानों के मजबूतीकरण द्वारा पृष्ठभूमि पर परिणाम प्राप्त किए गए हैं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता के सुधार, सफल हस्तक्षेप मॉडलों का विकास किया जाता है जिससे कि निर्धनों, विशेष रूप से मध्य भारत में जनजातीय परिवारों को निर्धनता और अभाव से बाहर निकाला जा सके।

कृपया हमारी वेबसाइट: <https://www.brif.in> पर पधारें।

परियोजना के बारे में - उच्च प्रभाव वाली मेगा-जलोत्सारण परियोजना झारखण्ड

28 अगस्त, 2020 को, बीआरएलएफ ने उच्च प्रभाव वाली मेगा जलोत्सारण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त मनरेगा सेल, झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित परियोजना 7 जिलों के सर्वाधिक पिछड़े 24 प्रखंडों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य 190,000 सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है। परियोजना की अवधि चार वर्ष है और कार्यक्षेत्र कार्यान्वयन 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। परियोजना राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत 12 सीएसओ भागीदारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य 190,000 सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है।

बीआरएलएफ राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त और अनुभवी पेशेवर की खोज कर रहा है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई राज्य की राजधानी में स्थापित है और उनकी संबंधित अवस्थिति में इस परियोजना के क्रियान्वयन करने वाले सीएसओ भागीदारों को रणनीतिक सुविधा सहायता प्रदान कर रहा है। बीआरएलएफ और आयुक्त मनरेगा के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में एसपीएमयू कार्य करता है।

श्रेणी-5: सलाहकार-एमआईएस विशेषज्ञ

रिक्तियों की संख्या-1

मासिक पारिश्रमिक- रु.42525/-

रिपोर्टिंग अधिकारी-टीम लीडर

जॉब का संक्षिप्त विवरण:

- बीआरएलएफ एमआईएस पोर्टल और जीवि दाह हासा एमआईएस पोर्टल पर परियोजना संबंधी सभी डेटा बनाए रखना।
- बीआरएलएफ एमआईएस सॉफ्टवेयर में 100% परिवारों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- कार्यक्षेत्र से डेटा संग्रह के लिए प्रणाली और मानदंड विकसित करना और दोनों पोर्टल में डेटा का नियमित संग्रह और प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- डेटा रखरखाव, रिपोर्ट उत्पादन और परियोजना से संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए एसपीएमयू और बीआरएलएफ टीम को सहयोग और समर्थन करना।
- वह भागीदारों के साथ परियोजना से संबंधित संचार में शामिल होगा, परियोजना कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता और संपत्ति की खरीद के लिए विक्रेताओं के साथ डीलिंग करेगा/करेगी।
- एमआईएस विशेषज्ञ परियोजना में डेटा प्रबंधन प्रणाली पर और एम एवं ई टूल्स पर सीएसओ, एसपीएमयू के प्रशिक्षण आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

उम्मीदवार की वांछित/आवश्यक योग्यता:

- एमएस ऑफिस और सोशल मीडिया टूल्स पर अच्छे ज्ञान के साथ सामाजिक क्षेत्र में 4 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर।
- जलोत्सारण अथवा एनआरएम परियोजना के बड़े पैमाने पर एमआईएस को संभालने में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- परियोजना की आवश्यकता के अनुसार, राज्य के भीतर और राज्य से बाहर यात्रा करने के लिए इच्छुक और टीम के साथ काम करने के लिए प्रेरित होना चाहिए।
- हिंदी और अंग्रेजी में धाराप्रवाह संवाद की दक्षता
- आयु सीमा: 40 वर्ष।

नियुक्ति का स्थान:

- रांची, झारखण्ड

आवेदन प्रक्रिया:

इन पदों के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को 05, अप्रैल, 2022 को अथवा पूर्व

<https://recruitment.samshrm.com/JOBS/BRLF> पर ऑनलाईन आवेदन करने का निवेदन किया जाता है।